

“कुछ दे दो बाबा, भगवान आपका भला करेगा।” वह मेरे पास आकर बोला। वह जवान आदमी था।

“जवान आदमी होकर भी भीख माँगते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? कुछ काम क्यों नहीं करते?” मैंने कहा।

“काम ही तो कर रहा हूँ। क्या भीख माँगना काम नहीं है?”

मैंने सोचा वह ठीक ही तो कह रहा है। जेब से एक रुपये का सिक्का निकाल कर कहा, यह लो।

उसने एक के सिक्के को तुच्छ नजरों से देखा और बोला, “एक रुपये से क्या होता है साहब आजकल? एक रुपये में तो एक सिगरेट भी नहीं मिलती।”

मैं बोला, “देखो, एक रुपया लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो।”

“वाह साहब, आप दोस्तों के साथ ‘बार’ में बैठ कर शराब पीने में तो हजार-पाँच सौ रुपये खर्च कर देंगे। और ‘वेटर’ को ही बीस पचीस रुपये टिप दे देंगे। पर आप हमें दस-पाँच रुपये भी नहीं दे सकते।”

उसकी बातों में अब मुझे भी थोड़ा रस आने लगा था। मैंने कहा, “शराब चाहे अच्छी हो या बुरी, पर वह कम-से-कम हमारे शरीर में तो जाती है। वेटर भी अपनी सेवाएँ देता है। पर तुम्हें देने से मुझे क्या मिलेगा?”

“हमें देने से आपको पुण्य मिलेगा साहब जो परलोक में आपके काम आयेगा। बस अब जल्दी से दस रुपये दे दीजिये।”

“देखो भाई, एक रुपये ले लो। और लोगों से भी माँगोगे तो एक दिन में दस-पाँच रुपये बन जायेंगे।”

“एक रुपया तो मैं किसी से नहीं लेता साहब। देना है तो कम-से-कम पाँच रुपये दीजिये।”

कुछ देर तो वह मुझे बड़ी हिकारत भरी नजर से देखता रहा, फिर चला गया।

दूधवाली का सपना ?

किसी गाँव में एक दूधवाली रहती थी।? वह बहुत गरीब थी।? वह रोज सवेरे दूध बेचने शहर जाती थी।? उसके पास एक गाय थी।? वह अमीर बनना चाहती थी।?

एक दिन वह दूध बेचने शहर जा रही थी।? उसके सिर पर दूध का मटका था।? वह सोच रही थी कि मैं रोज दूध बेचकर चालीस रुपये कमाऊँगी।? उनमें से रोज बीस रुपये बचाऊँगी।? तीन-चार महीने में मेरे पास हजारों रुपये हो जाएँगे।? इन रुपयों से मैं एक और गाय खरीदूँगी।? फिर उसका भी दूध बेचूँगी।? इस तरह मेरे पास बहुत सारा धन हो जाएगा।? फिर मैं एक मकान बनवाऊँगी।? मैं उसमें आराम से रहूँगी।? मैं कोई काम नहीं करूँगी।? मेरा सब काम नौकर करेंगे।? जब मेरा पति मुझसे पूछेगा – “तुम काम क्यों नहीं करती?” तो मैं सिर हिलाकर शान से कहूँगी – “नहीं करती”।?

दूधवाली ने झटके से सिर हिलाया।? दूध का मटका नीचे गिरकर चूर-चूर हो गया।? सारा दूध बह गया।? इसी के साथ दूधवाली का सपना भी चूर-चूर हो गया।?